



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं० पटना 514) पटना, शुक्रवार, 14 जून 2024

सं० V/उ0-3-01/2017—2349
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

13 जून 2024

विषय:—विभागीय राज्यादेश संख्या—2071 दिनांक—20.06.2018 द्वारा उपायुक्त मद्यनिषेध के अतिरिक्त 05 पदों के सृजन के फलस्वरूप उपायुक्त मद्यनिषेध, मगध प्रमंडल/ पूर्णियां प्रमंडल/ सारण प्रमंडल/ कोशी प्रमंडल/ मुंगेर प्रमंडल के कार्यालय के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) की दिनांक—12.04.2018 की बैठक एवं राज्य मंत्रीपरिषद् की दिनांक—12.06.2018 की बैठक के मद संख्या—04 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या—2071 दिनांक—20.06.2018 द्वारा पूर्व से कार्यरत उपायुक्त के प्रमंडल स्तर पर 04 पदों यथा पटना—सह—मगध, तिरहुत—सह—सारण, भागलपुर—सह—मुंगेर, तथा दरभंगा—सह—कोशी—सह—पूर्णियां के स्थान पर सभी प्रमंडल में उपायुक्त मद्यनिषेध का 1—1 पद अर्थात् कुल 09 पद गठित करते हुए 05 नये उपायुक्त मद्यनिषेध का पद का सृजन किया गया है।

2. उक्त राज्यादेश के द्वारा उपायुक्त मद्यनिषेध के अतिरिक्त 'बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा' अंतर्गत सहायक अवर निरीक्षक के पदों को पुर्नगठित करते हुए 391 (तीन सौ एकानबे) पदों की स्वीकृति दी गयी है, जिसके क्रम में संकल्प संख्या—3882 दिनांक—28.11.2018 निर्गत है। उक्त संकल्प के अनुलग्नक—02 में सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के पदों का जिलावार/कार्यालयवार स्वीकृत बल निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी 09 प्रमंडल के उपायुक्त मद्यनिषेध के कार्यालयों हेतु 02—02 पद अनुमान्य किया गया है।

3. उक्त के आलोक में उपायुक्त मद्यनिषेध के प्रमंडल स्तर पर स्वीकृत 04 कार्यालयों को निम्न रूप से पुर्नगठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:—

क्रम संख्या	पूर्व से स्वीकृत उपायुक्त मद्यनिषेध के कार्यालय	पुर्नगठन के फलस्वरूप स्वीकृत उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय
1.	उपायुक्त मद्यनिषेध, पटना—सह—मगध	उपायुक्त मद्यनिषेध, पटना प्रमंडल, पटना
2.	उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत—सह—सारण	उपायुक्त मद्यनिषेध, मगध प्रमंडल, गया
3.	उपायुक्त मद्यनिषेध, भागलपुर—सह—मुंगेर	उपायुक्त मद्यनिषेध,

क्रम संख्या	पूर्व से स्वीकृत उपायुक्त मद्यनिषेध के कार्यालय	पुर्नगठन के फलस्वरूप स्वीकृत उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय
		तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
4.	उपायुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा-सह-कोशी-सह-पूर्णिमा	उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा
5.		उपायुक्त मद्यनिषेध, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
6.		उपायुक्त मद्यनिषेध, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
7.		उपायुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
8.		उपायुक्त मद्यनिषेध, कोशी प्रमंडल, सहरसा
9.		उपायुक्त मद्यनिषेध, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा

4. पुर्नगठन के फलस्वरूप स्वीकृत 09 प्रमंडल के उपायुक्त मद्यनिषेध के कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य विपत्रों के भुगतान हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त मद्यनिषेध होंगे।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 514-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>